



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RBI/2014-15/576

DCBR.BPD (PCB/RCB) Cir. No.32 /14.01.062/2014-15

April 30, 2015

The Chief Executive Officer
All Primary (Urban) Co-operative Banks /
State and Central Co-operative Banks (StCBs / CCBs)

Madam / Dear Sir,

Implementation of Section 51-A of UAPA, 1967 – 6th Update of AI Qaida Sanctions List

Please refer to our [DCBR.BPD.\(PCB/RCB\).Cir.No.23/14.01.062/2014-15](http://www.rbi.org.in/DCBR.BPD.PCB/RCB.Cir.No.23/14.01.062/2014-15) dated [March 31, 2015](http://www.rbi.org.in/March%2031,%202015) on the captioned subject releasing the 5th update dated March 13, 2015 regarding UNSCR 1267(1999) / 1989(2011) Committee's AI Qaida Sanctions List.

2. Ministry of External Affairs (MEA), UNP Division has forwarded 6th update dated March 16, 2015 regarding deletion of four entries to the sanction list (copy enclosed). Press release pertaining to 6th update of March 16, 2015 is available at : <http://www.un.org/press/en/2015/sc11818.doc.htm>

A link to updated list of individuals and entities linked to AI Qaida is available at : <http://www.un.org/sc/committees/1267/1267.pdf>

3. Primary (Urban) Cooperative Banks /State Cooperative Banks/Central Co-operative Banks are required to update the list of individuals/entities as circulated by Reserve Bank of India and before opening any new account, it should be ensured that the name of the proposed customer does not appear in the list. Further, banks should scan all existing accounts to ensure that no account is held by or linked to any of the entities or individuals included in the list.

सहकारी बैंक विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, गारमेट हाऊस, पहली मंज़िल, डॉ ए बी रोड, वरली, मुंबई- 400018 भारत
फोन: 022 - 2493 9930 - 49; फ़ैक्स: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; ई मेल: cgmincubd@rbi.org.in

Department of Co-operative Bank Regulation, Central Office, Garment House, 1 Floor, Dr.A.B.Road, Worli, Mumbai - 400018, India

Phone: 022 - 2493 9930 - 49; Fax: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; Email: cgmincubd@rbi.org.in

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

चेतावनी: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-मेल, डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिये कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाते का ब्योरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगा जाता है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी प्रकार से जवाब मत दीजिए।
Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.



4. Banks are advised to strictly follow the procedure laid down in the UAPA Order dated August 27, 2009 enclosed to our [circulars UBD.CO.BPD. PCB. Cir. No. 21/12.05.001/2009-10](#) dated November 16, 2009 and [RPCD.CO.RF.AML.BC.No.34/07.40.00/2009-10](#) dated October 29, 2009 and ensure meticulous compliance to the Order issued by the Government.

5. As far as freezing of funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts of the designated individuals/entities is concerned, action should be taken as detailed in paragraph 7 of the circular dated November 16, 2009 in respect of UCBs and paragraph 4 of the circular dated October 29, 2009 in respect of StCBs and CCBs.

6. A link of press releases in which the relevant changes to the list are announced are posted on the Committee's website at the following URL: <http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml>

Yours faithfully,

(Scenta Joy)
General Manager